

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 644]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 नवम्बर 2022 — कार्तिक 18, शक 1944

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक 10720/वि.स./स्था./2022.— छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के अंतर्गत निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। अर्थात्—

संशोधन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के सेवा अधिनियम, 1981 के अधीन निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम, 1990 के उप नियम —4 में पदों की पूर्ति हेतु प्रणाली में भर्ती का तरीका निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है —

पदों की पूर्ति प्रणाली कंडिका क्रमांक	पद	वर्तमान भर्ती का तरीका	संशोधित भर्ती का तरीका
(1)	(2)	(3)	(4)
4(60)	सहायक ग्रेड-3 सह अनुवादक,	(01) 2/3 पद विधान सभा सचिवालय में कार्यरत तथा अनुवाद कार्य में दक्ष कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा। (02) 1/3 पद विधान सभा सचिवालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में लगातार न्यूनतम तीन वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा जिन्हें अनुवाद कार्य का अनुभव प्राप्त हो।	(01) विधान सभा सचिवालय में कार्यरत तथा अनुवाद कार्य में दक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा। या (02) विधान सभा सचिवालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में लगातार न्यूनतम तीन वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा जिन्हें अनुवाद कार्य का अनुभव प्राप्त हो।

आदेशानुसार

हस्ता./—

(दिनेश कुमार शर्मा)
सचिव.